



प्रतिशत को दशमलव में बदलें

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$0,9 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$0,8 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$1,34 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$0,6 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$0,2 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$0,57 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$1,58 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$1,17 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$1,75 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$1,28 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$1,4 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$0,47 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$0,6 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$1,1 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$0,38 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$0,47 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$1,4 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$0,64 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$0,66 = \underline{\hspace{2cm}} \%$

$1,72 = \underline{\hspace{2cm}} \%$



प्रतिशत को दशमलव में बदलें

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$0,9 = 90\%$$

$$0,8 = 80\%$$

$$1,34 = 134\%$$

$$0,6 = 60\%$$

$$0,2 = 20\%$$

$$0,57 = 57\%$$

$$1,58 = 158\%$$

$$1,17 = 117\%$$

$$1,75 = 175\%$$

$$1,28 = 128\%$$

$$1,4 = 140\%$$

$$0,47 = 47\%$$

$$0,6 = 60\%$$

$$1,1 = 110\%$$

$$0,38 = 38\%$$

$$0,47 = 47\%$$

$$1,4 = 140\%$$

$$0,64 = 64\%$$

$$0,66 = 66\%$$

$$1,72 = 172\%$$